



Date: January 13, 2026

To,
The Manager
Listing Department
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001

Scrip Code: 544199
Scrip ID: GEMENVIRO

Subject: Newspaper advertisement for completion of dispatch of Notice of Postal Ballot of the Company

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to the provisions of Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of the newspaper advertisements published today i.e., January 13, 2026, confirming dispatch of Postal Ballot Notice through email on **Monday, January 12, 2026** to all the members whose e-mail IDs are registered with Company/ Skyline Financial Services Private Limited, Registrar & Share Transfer Agent ("RTA")/ Depositories as on cut off date i.e., Friday, January 02, 2026 in the following newspapers:

1. Financial Express - All Editions in English Language
2. Jansatta - All Editions in Hindi Language

This information will also be hosted on the website of the Company at <https://gemrecycling.com/>.

Kindly take the same on your record and bring notice to all the concerned.

For **GEM Enviro Management Limited**

Tripti Goyal
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No.: ACS73180

Encl: as above

GEM ENVIRO MANAGEMENT LIMITED

(Formerly Known as GEM Enviro Management Private Limited)

Waste Management Agency (WMA)

Reg. Office : Unit no.203, Plaza- 3, Central Square, Bara Hindu Rao, Delhi- 110006, Ph. No. 011-49068377
Email : info@gemrecycling.com, Web : www.gemrecycling.com, CIN No. : L93000DL2013PLC247767

GEM ENVIRO MANAGEMENT LIMITED
CIN: L9300DL2013PLC247767
Regd. Office: Unit No. 203, Plaza 3, Central Square,
Bara Hindu Rao, Delhi - 110006
E-mail: info@gemrecycling.com; Website: www.gemrecycling.com;
Tel. No: 011-49068377

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION
Notice is hereby given that GEM Enviro Management Limited ("the Company"), pursuant to the provisions of Section 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Rules 20 and 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), each as amended, and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for holding general meetings/ conducting postal ballot process through e-Voting, vide General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025 read together with previous circulars issued by MCA in this regard (collectively referred as "MCA Circulars"), seeking approval of the Members of the Company, by way of Postal Ballot, only through remote e-voting process, in relation to the following Ordinary/ Special Resolution(s) as set out in the Postal Ballot Notice ("Notice"):

Sr. No.	Description of Resolution(s)	Type of Resolution(s)
1	Appointment of Mr. Anil Kumar Behl (DIN: 00697588) as a Director of the Company	Ordinary Resolution
2	Appointment of Mr. Anil Kumar Behl (DIN: 00697588) as Managing Director of the Company	Special Resolution
3	Appointment of Mr. Suresh Kumar Gupta (DIN: 00375710) as Non- Executive Independent Director of the Company	Special Resolution

The Company has completed dispatch of the Notice on **January 12, 2026** through electronic mode, to all its members whose e-mail IDs are registered with the Company/ Skyline Financial Services Private Limited, Company's Registrar and Transfer Agents ("RTA"/Depositories, as on **Friday, January 02, 2026 ("Cut-off Date")**. Members whose names appear in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on cut-off date shall be entitled to vote in relation to the resolutions specified in the Notice. Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of equity shares registered in the name of members as on the cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

In accordance with the MCA circulars, physical copy of the Notice, Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope are not sent to the Members for this Postal Ballot and members can vote through e-voting.

The Notice is also available on the Company's website at <https://gemrecycling.com/shareholders-meeting1/>, on the website of Stock Exchange i.e., BSE Limited at www.bseindia.com, and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.

The Company has engaged the services of CDSL to provide the remote e-voting facility to its members. The remote e-voting period will commence on **Tuesday, January 13, 2026 at 09:00 a.m. (IST) and will end on Wednesday, February 11, 2026 at 5:00 p.m. (IST)**. The Remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time and shall be disabled by CDSL thereafter. Once the vote on the resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

Members are requested to carefully read the instructions in this Notice and record their assent (FOR) or dissent (AGAINST) only through the remote e-Voting process not later than 5:00 p.m. (IST) on Wednesday, February 11, 2026, in order to be eligible for being considered, failing which it will be strictly considered that no vote has been received from the Member.

As all shares of the Company are held in dematerialized form, members are requested to update/register their email addresses with their respective Depository Participants.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Hemant Kumar Sajani (Membership No. FCS7348, CoP No. 14214), Designated partner of HKS & Associates, LLP, Practicing Company Secretaries, as the scrutinizer to scrutinize the postal ballot process in a fair and transparent manner.

The results of the Postal Ballot along with the Scrutinizer's Report will be declared on or before **Friday, February 13, 2026** and shall be placed on the Company's website at <https://gemrecycling.com> and website of CDSL at www.evotingindia.com. The results shall be simultaneously communicated to the stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, where the equity shares of the Company are listed.

If you have any queries or issues regarding e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dahi, Sr. Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatall Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Patel (East), Mumbai - 400013.

For GEM Enviro Management Limited
Sd/-
Tripti Goyal
Date : January 12, 2026
Place : Delhi
Company Secretary & Compliance Officer
ICSI M. No.: ACS73180

REPCO HOME FINANCE LIMITED
CIN: L65922TN2000PLC044655
Registered Office: Repco Tower, No. 33, North Usman Road,
T. Nagar, Chennai 600 017
Corporate Office: Third Floor, Alexander Square, Old No.34 & 35, New No.2,
Sardar Patel Road, Guindy, Chennai - 600032 Ph: (044) - 4210 6650
E-mail: cs@repcohome.com Website: www.repcohome.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT
NOTICE is hereby given to the Members of Repco Home Finance Limited ("the Company"), pursuant to Section 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with the Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws and regulations, read with the General Circulars No. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 22/2020 dated 15th June, 2020, 33/2020 dated 28th September, 2020, 39/2020 dated 31st December, 2020, 10/2021 dated 23rd June, 2021, 20/2021 dated 8th December, 2021, 3/2022 dated 5th May, 2022, 11/2022 dated 28th December, 2022, 9/2023 dated 25th September, 2023, 09/2024 dated 19th September, 2024 and 03/2025 dated 22nd September, 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") ("collectively referred as "MCA Circulars"), to pass the following special business as an Ordinary Resolution as set out in the Notice dated 12th January, 2026, by means of Postal Ballot through voting by electronic means only ("Remote E-voting" or "E-Voting").

S.No.: 1: Type of Resolution : Ordinary Resolution
Description of Resolution: Appointment of Mr. Paiyur Kuppuraman Vaidyanathan (DIN: 11234342) as Whole-Time Director

Members of the Company are hereby informed that the Company has, on 12th January, 2026 sent the Postal Ballot Notice ("Notice") dated 12th January, 2026 along with the explanatory statement, by e-mail, to all the member whose names appeared in the Register of Members received from National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") and whose e-mail addresses are registered with the Company or KFin Technologies Limited (RTA) (KFin/KFintech) or the Depository Participant(s) as of Friday, 9th January, 2026 ("Cut-Off Date"). In accordance with the above-mentioned Circulars, members can vote only through remote e-voting process. Further, pursuant to the aforesaid circulars the requirement of sending physical copies of the Notice, postal ballot forms, and pre-paid business reply envelopes has been dispensed with. A copy of the Notice is also available on the Company's website at www.repcohome.com and on the website of Stock Exchanges where the shares of the Company are listed namely i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of KFin Technologies Limited ("KFintech") at <https://evoting.kfintech.com/>. Members who have not received the Notice may download the same from the aforesaid websites.

In compliance with the Applicable Laws, the Company is pleased to provide a remote e-voting facility to all its members to cast their votes electronically and for this purpose, the Company has engaged the services of KFin Technologies Limited ("KFintech") as the agency to provide e-voting facility. The login credentials for casting votes through remote e-voting have been sent to the members along with the Notice. The detailed procedure for casting votes through remote e-voting has been provided in the Notice. Members whose names appeared in the Register of Members as of Cut-Off Date i.e. Friday, 9th January, 2026, are eligible to vote on the resolutions set out in the Notice through remote e-voting only. The voting rights shall be reckoned on the paid-up equity shares registered in the name of the Member as of that date. Members are requested to provide their assent or dissent through remote e-voting only. A person who is not a member as of the Cut-Off Date should treat the Notice for information purpose only. Any Member(s) who did not receive the Notice may either send an email to cs@repcohome.com or write to KFintech at enward.ris@kfintech.com to receive the notice.

The remote e-voting period shall commence on Wednesday, 14th January, 2026 at 9:00 AM (IST) and ends on Thursday, 12th February, 2026 at 5:00 PM (IST). The members may cast their vote electronically during the aforesaid period. The votes cast after 5:00 PM on Thursday, 12th February, 2026, will not be valid and the remote e-voting module shall be disabled upon expiry of the aforementioned period and remote e-voting shall not be allowed beyond the same. During this period, Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, may cast their vote by remote e-voting. Once the vote is cast on the resolution, the Member will not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. The resolution, if passed by the requisite majority shall be deemed to have been passed on Thursday, 12th February, 2026 being the last date specified by the Company for e-voting.

Members may send their queries related to items included in the Postal Ballot Notice or any other matter concerning the Company on the email id to cs@repcohome.com from their registered email address, mentioning their name, folio number/DP ID, Client ID, as applicable, mobile number and copy of PAN card. The Company has appointed Mr. G. Ramachandran (FCS No. 9687, CoP No. 3056) of M/s. G. Ramachandran & Associates, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the postal ballot and e-voting process in a fair and transparent manner. The Scrutinizer will submit his report to the Chairman of the Board or any other person as authorised by the Chairman, after completion of the scrutiny of the e-voting process. The results will be declared within two working days from the end of the e-voting period and will be displayed on the Company's website www.repcohome.com and KFintech e-voting website <https://evoting.kfintech.com/>. The same will also be communicated to the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed namely i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

In case of any queries relating to e-voting, Members may refer 'Frequently Asked Questions' ("FAQ") for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the "Download" section of KFintech's website <https://evoting.kfintech.com/>. For any grievances related to remote e-voting, please contact Mr. Mohammed Shanoor, Corporate Registry, KFintech at enward.ris@kfintech.com or call toll free number 1800-309-4001.

Members are requested to carefully read all the notices set out in the Notice and in particular manner of casting vote through remote e-voting.

By the order of the Board
For Repco Home Finance Limited
Sd/-
Ankush Tiwari
Date: 12th January, 2026
Place: Chennai
Company Secretary & Compliance Officer
M. No. A38979

L&T Metro Rail Hyderabad
L&T METRO RAIL (HYDERABAD) LIMITED
CIN: L45300TG2010PLC001021
Registered office: Hyderabad Metro Rail Administrative Building, Uppal Main Road, Nagole, Hyderabad - 500 039 (Rs. in Lakhs)

Particulars	Quarter ended		Period ended		Year ended
	December 31, 2025 (Reviewed)	September 30, 2025 (Reviewed)	December 31, 2024 (Reviewed)	December 31, 2024 (Reviewed)	
1. Total income from operations	25197	25958	23190	74907	110854
2. Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(18433)	(17400)	(20166)	(56479)	(62591)
3. Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(18433)	(17400)	(20166)	(56479)	(62591)
4. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(18433)	(17400)	(20166)	(56479)	(62588)
5. Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(18435)	(17400)	(20166)	(56479)	(62615)
6. Paid up Equity Share Capital	741300	741300	741300	741300	741300
7. Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(717032)	(688597)	(659969)	(717032)	(660551)
8. Net worth	24268	42703	81331	24268	81331
9. Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	1422447	1413596	1365118	1422447	1365118
10. Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-	-
11. Debt Equity Ratio *	9.55	8.44	6.60	9.55	6.60
12. Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)	(0.25)	(0.23)	(0.27)	(0.76)	(0.84)
1. Basic & Diluted	(0.25)	(0.23)	(0.27)	(0.76)	(0.84)
13. Capital Redemption Reserve	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
14. Debenture Redemption Reserve	282	282	282	282	282
15. Debt Service Coverage Ratio	0.51	0.55	0.94	0.49	0.66
16. Interest Service Coverage Ratio	0.51	0.55	0.94	0.49	0.63

* The Unsecured NCD forming part of promoter contribution for the project are considered as equity.

Note:
1. The above results have been recommended by the Audit committee and approved by the Board of Directors on 12th January 2026.
2. Revenue from operations for the period ending 31.03.2025 includes income (net) on transfer of real estate business undertaking.
3. Previous figures have been regrouped wherever necessary to conform to the presentation of the current period's accounts.

Place: Hyderabad
Date: 12.01.2026

For L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited
Sd/-
KVB Reddy
MD & CEO
DIN: 01683467

MIRAE ASSET Mutual Fund

NOTICE NO. AD/05/2026

Declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal in Mirae Asset Low Duration Fund (Formerly Known as Mirae Asset Savings Fund)

NOTICE is hereby given that Mirae Asset Trustee Company Pvt. Ltd., Trustees to Mirae Asset Mutual Fund ("MAMF") have approved declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) in Mirae Asset Low Duration Fund:

Scheme / Plan / Option	Quantum** (₹ per unit)	NAV as on January 09, 2026 (₹ per unit)	Record Date*	Face Value (₹ per unit)
Mirae Asset Low Duration Fund - Regular Savings Plan - Quarterly IDCW Option	13.00	1013.3152	Friday, January 16, 2026	1,000.00
Mirae Asset Low Duration Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW Option	14.50	1014.8452		

* or the immediately following Business Day, if that day is not a Business day.
** subject to availability of distributable surplus as on the record date and as reduced by applicable statutory levy, if any.

Pursuant to the payment of IDCW, the NAV of the IDCW option of the above-mentioned Plans of the Schemes will fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

Income distribution will be paid to those unitholders / beneficial owners whose names appear in the register of unit holders maintained by the Mutual Fund / statement of beneficial ownership maintained by the depositories, as applicable, under the IDCW option of the aforesaid plans as on the record date.

For and on behalf of the Board of Directors of
MIRAE ASSET INVESTMENT MANAGERS (INDIA) PVT. LTD.
(Asset Management Company for Mirae Asset Mutual Fund)

Place : Mumbai
Date : January 12, 2026

AUTHORISED SIGNATORY
Sd/-
For and on behalf of the Board of Directors of
MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited) (CIN: U65990MH2019PTC324625). Statutory Details: Sponsor: Mirae Asset Global Investments Company Limited, Trustee: Mirae Asset Trustee Company Private Limited.
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. ☎ 1800 2090 777 (Toll free), ✉ customercare@miraeasset.com / www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

MEESHO LIMITED
(formerly Meesho Private Limited and Fashnear Technologies Private Limited)
CIN : U74900KA2015PLC082263
Registered Office: 3rd Floor, Wing-E, Helios Business Park, Kadubeesanahalli Village, Varthur Hobli, Outer Ring Road, Bengaluru, Karnataka - 560103, Tel: +91 9108021923, Email: cs@meesho.com; Website: www.meesho.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given to the shareholders ("Members") of Meesho Limited (the "Company"), pursuant to and in compliance with the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act"), Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, read with the various Circulars Issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, and as amended from time to time), and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and pursuant to any other applicable laws and regulations, the resolutions appended below are proposed to be passed by the members by way of "Postal Ballot" through Remote e-voting process ("e-voting"):

Sl.No.	Particulars	Type of Resolution
1	Ratification and amendment of "Meesho Limited - Employee Stock Option Plan 2024" ("ESOP 2024 Plan")	Special Resolution
2	Ratification of the extension of benefits of "Meesho Limited - Employee Stock Option Plan 2024" ("ESOP 2024 Plan") to the eligible employees of the subsidiaries of the Company.	Special Resolution
3	Appointment of M/s. BMP & Co. LLP, Practicing Company Secretaries as the Secretarial Auditors of the Company.	Ordinary Resolution

The electronic copies of Postal Ballot Notice ("Notice") along with the Explanatory statement and instruction for Remote e-voting has been sent on Monday, January 12, 2026, to those members whose e-mail id's are registered with their Depositories/Depository Participants as on Friday, January 09, 2026 ("Cut-off date"). The notice is also available on the Company's website at www.meesho.com and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) i.e., www.evoting.nsdl.com and the websites of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) on which the equity shares of the Company are listed.

In compliance of the provisions of Companies Act, 2013, SEBI Listing Regulations and MCA circulars, the Company is pleased to offer remote e-voting facility through the NSDL to all the eligible Members whose names appear in the Register of Members or in the List of Beneficial Owners as on Friday, January 09, 2026 ("Cut-off date"). Pursuant to MCA Circulars, you are requested to communicate your assent or dissent through the remote e-voting system only. A person who is not member on cut-off date shall treat this notice for information purposes only.

The e-Voting facility would be available during the following period (both days inclusive):

Cut-off date for eligibility to vote	Friday, January 09, 2026
Commencement of remote e-voting	Wednesday, January 14, 2026 at 09.00 a.m. (IST)
End of remote e-voting	Thursday, February 12, 2026 at 05.00 p.m. (IST)

The e-voting facility will be disabled by NSDL immediately after 05.00 p.m. IST on Thursday, February 12, 2026, and will be disallowed thereafter. Members are requested to refer to the detailed instructions for e-voting forming part of the Postal Ballot notice.

The Company has appointed Mr. Pramod M P (C.P. No. 13784), Partner M/s. BMP & Co. LLP, Practicing Company Secretaries, as Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting in fair and transparent manner. The Scrutinizer will submit the report to the Company and the result of the Postal Ballot will be declared on or before Monday, February 16, 2026.

If you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under help section or write an email to evoting@nsdl.com or contact Mr. Flaguni Chakraborty, Deputy Manager, NSDL or send an email to evoting@nsdl.com or call on 022 - 4886 7000.

By Order of the Board
For Meesho Limited
(formerly Meesho Private Limited and Fashnear Technologies Private Limited)
Sd/-
Rahul Bhargava
Date: January 12, 2026
Place: Bengaluru
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: ACS41649

PREMIER POLYFILM LIMITED
Regd. Office: 305, III Floor, Elite House, 36, Community Centre, Kailash Colony Extn., Zamroodpur, New Delhi - 110048.
CIN NO. L25209DL1992PLC049590, Phone: 011-45537559,
Email: compliance.officer@premierpoly.com website: www.premierpoly.com

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON 31st DECEMBER 2025
(Rupees in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended
		3 months ended 31-12-2025	Corresponding 3 Months Ended 31-12-2024	9 Months Ended 31-12-2025	Corresponding 9 Months Ended 31-12-2024	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	8,976	7,053	24,886	22,190	30,464
2	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,189	888	3,113	2,724	3,463
3	Net Profit before tax for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,189	888	3,113	2,724	3,463
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	928	667	2,330	2,041	2,600
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	873	601	2,287	1,971	2,501
6	Equity Shares Capital (Face value Rs. 1/- Per equity share)	1,059	1,059	1,059	1,059	1,059
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited balance sheet of previous accounting year	10,728	8,384	10,728	8,384	10,728
8	Earning Per Share of Rs. 1/- each (for continuing and discontinued Operations) Basic and diluted	0.89	0.64	2.22	1.95	2.48

Notes:
1. The above extract is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under the Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the stock exchanges website: www.bseindia.com and www.nseindia.com. The same is also available on the company's Website: www.premierpoly.com.
2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their Meeting held on 12th January, 2026.
3. Other Figures, except Earnings per share, for the previous period have been regrouped/rearranged wherever necessary to correspond with the Current period's figures.
4. The Company has no subsidiary/associate/Joint Venture Company(ies).
5. The Company is mainly engaged in manufacturing and sale of Flexible PVC Flooring, Film and Sheets. Hence the Operations of the company are considered as a single business product. Segment reporting is not applicable.

Place: New Delhi
Date: 12-01-2026

For Premier Polyfilm Limited
Sd/-
Amitaabh Gera
Managing Director & CEO
DIN: 00061027

Aquapharm Chemical Limited
(Formerly known as Advaya Chemical Industries Limited)
Registered Office : 9th and 10th Floor, Amar Synergy, 12B, Sadhu Vaswani Road, Pune - 411001, Maharashtra, India
Branch Office : 31 Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001, West Bengal, India
P : +91 20 6609 0000 | F : +91 20 2605 3396 | E : post.investor@aqpharm.in | W : www.aquapharm-india.com | CIN: U20299PN2024PLC227198

Extract of Un-audited Consolidated Financial Results for the quarter ended 31st December, 2025 (₹ in Crores except as otherwise stated)

Sl. No.	Particulars	3 months ended 31.12.2025	Corresponding 3 months ended 31.12.2024	Year ended 31.03.2025
		(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Audited)
1	Total Income from operations	326.82	327.89	1,431.07
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(27.82)	(16.73)	(41.92)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(35.49)	(17.25)	(42.44)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items#)	(29.73)	(13.61)	(29.14)
5	Total comprehensive income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(25.71)	(6.84)	(20.91)
6	Paid-up Equity Share Capital (Shares of Rs. 10/- each)	2,850.00	100.00	2,850.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves)	(55.33)	(26.96)	(55.33)
8	Securities Premium Account	-	-	-
9	Net worth	2,767.51	2,780.32	2,794.67
10	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	467.50	550.00	467.50
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
12	Debt Equity Ratio	0.41	0.44	0.41
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	(0.10)	(1.36)	(0.69)
14	Capital Redemption Reserve	-	-	-
15	Debt Service Coverage Ratio	0.81	3.08	0.72
16	Interest Service Coverage Ratio	(0.11)	0.25	0.52

- Exceptional and/ or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules/ AS Rules, whichever is applicable.

Notes:
a) Above is an extract of the detailed format of quarterly results filed with the Stock Exchange(s) under regulation



जेम एनवायरो मैनेजमेंट लिमिटेड

सोसाइटी नं. U93000DL2013PLC247767
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर 203, प्लॉट 3, वीटल स्क्वायर,
बहाई हिंदू पार्क, दिल्ली-110006

ई-मेल: info@gemrecycling.com,
वेबसाइट: www.gemrecycling.com,
फोन: 011-49068377

पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग जानकारी का नोटिस

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि जेम एनवायरो मैनेजमेंट लिमिटेड ("कंपनी"), कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108, 110 और अन्य लागू प्राधान्यों, यदि कोई हो, के सहपणित कर्मी (प्रबंधन और प्रशासन) निम्नावली, 2014 ("नियम") के नियम 20 और 22 के प्राधान्यों के अनुसार, पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग जानकारी की सूचना भारतीय प्रतिभूति और वित्तिय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रवृत्तीकरण अध्यायकारिता) ("नियम", 2015 ("सूचीबद्धता अधिनियम"), द सूचीबद्धता कानूनी बोर्ड के अधीन) और इंडिया ("संविधान") द्वारा जारी सामान्य बडकों पर सोफ्टवेयर स्टैंडर्ड, प्रत्येक संशोधित रूप में, और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एसीए") द्वारा ई-वोटिंग के माध्यम से सामान्य बडकों आयोजित करने, पोस्टल बैलेट प्रक्रिया आयोजित करने के लिए निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार, सामान्य परिपत्र संख्या 03/ 2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 के माध्यम से, इस संबंध में एसीए द्वारा जारी पिछले परिपत्रों के सहपणित (सामूहिक रूप से "एसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित), कंपनी के सदस्यों की सूचीबद्ध होने के लिए, केवल विमोह ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से, पोस्टल बैलेट नोटिस ("नोटिस") में निर्दिष्ट निम्नलिखित सामान्य/विशेष प्रस्तावों के संक्षेप में:

क्र. सं.	प्रस्तावों का विवरण	प्रस्तावों के प्रकार
1	बी अगिल कुमार बहल (बीआईएन 00697588) की नियुक्ति कंपनी की निदेशक के रूप में	सामान्य प्रस्ताव
2	बी अगिल कुमार बहल (बीआईएन 00697588) की नियुक्ति कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में	विशेष प्रस्ताव
3	बी सुरेश कुमार गुप्ता (बीआईएन 00375710) की नियुक्ति कंपनी के वीए-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में	विशेष प्रस्ताव

[illegible]

लैंडिंगकार्ट फाइननेस लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस – ऑफिस नंबर 3, कनेक्ट, 401/ F, चौथी मंजिल, रिवलर पुरमोपिया,
कांडीवाल मंसियन रोड, ओशरी (हस्त) मुंबई – 400099

अहमदाबाद की कोर्ट में दायर एक मामले में एक ग्राहक को ऋण चुक के लिए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। लैंडिंगकार्ट फाइननेस लिमिटेड ने चुककर्ता ग्राहक शमशेर शाह को खिलाफ सख्त कार्रवाई कारवाई की है। उपन्यास जानकारों के अनुसार, शमशेर शाह ने लैंडिंगकार्ट फाइननेस लिमिटेड से रु. 10 लाख का ऋजने लेने लिया था। हालांकि, ग्राहक समग्र शर्तों के अनुसार ऋण चुकाने में विफल रहा। मारिक पुनर्मुगतान किस्तों का मुगतान सफल नहीं किया गया तथा वे लम्बे समय तक ललित रहे।

बार-बार अनुमती कार्रवाई और कानूनी नोटिफ कांश करतें तथा ऋण वापस लेने के बावजूद, ग्राहक काकाया राशि का भुगतान करने या अपना देयता का भुगतान करने में विफल रहा। नतीजतन, लैंडिंगकार्ट फाइननेस लिमिटेड ने परकाया लिखित अपिगणन की धारा 138 के तहत ग्राहक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। यह मामला श्री मुकेश चौधरी (प्रमुख – कानूनी) और श्री बिनित सिन्हा (एनआई 138 प्रभारी) की देखरेख में अहमदाबाद के लाल दरवाजा, अरुना बाजार की अदालत में कपनी के अधिष्ठत प्रतिनिधियों श्री अमय कुमार डोलखिया और श्री विनयित बक्सी के माध्यम से 68172 / 22 दार और और संसाधित किया गया था।

माननीय अदालत ने कपनी को अदालत के समक्ष उपस्थित होने और अदालत को सुलझाने का निर्देश देते हुए समग्र और वारंट जारी किया। हालांकि, ग्राहक न तो पिपिटार के लिए उपस्थित हुआ और न ही उपायुक्त पिपिटार जारी या कुल काकाया राशि चुकाने की इच्छा दिखाई।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद माननीय अदालत ने ग्राहक को दोषी ठहराते हुए एक अदालत पारित किया और उसे एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को 30 दिनों के भीतर रु. 7,47,261 का भुगतान देने का निर्देश दिया। भुगतान राशि का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में, अभिमुक्त को अतिरिक्त दो महों की कैद से मुक्तना होता। यह कार्रवाई स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि बुराया ग्राहकों के पुनर्मुगतान में लापरवाही के परिणामस्वरूप उधारकर्ताओं के लिए गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं।

इस मामले में, अग्रविधा की एम. वदे ने लैंडिंगकार्ट फाइननेस लिमिटेड की ओर से उपस्थित हुए और माननीय अदालत के समक्ष कपनी का प्रतिनिधित्व किया।

[illegible]

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : 09, सामुदायिक हॉट, चणंद लोक, चणंद विहार, नई दिल्ली - 110057
 फोन: 011 49267500, टोल फ्री नंबर: 1800 212 8800,
 ईमेल: customer.care@herohill.com वेबसाइट:
 www.herohousingfinance.com सीआईएस: U65192DL2016PLC30148
 संघर्ष पत्रा: इंदिरा मेमोरि, ए-6, सेक्टर-4, गोकुल, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301

संयोजक से वोट डाल सकते हैं।
 गैलियट कम्पनी की वेबसाइट <https://gemrecycling.com/shareholders-meeting-1/>,
 स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और सेंट्रल
 डिफॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की वेबसाइट
www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

गैलियट ने अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा देने के लिए सीडीएसएल की सेवाएं प्राप्त की हैं।
 रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मूलतः, 13 जनवरी, 2026 को प्रातः 09:00 बजे (भारतीय
 मान्यानुसार) सुभाह १० बजे और बुधवार, 11 फरवरी, 2026 को प्रातः 05:00 बजे (भारतीय
 मान्यानुसार) समाप्त हो जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति करण उद्देश्यपूर्वक स्थिति के बाद नहीं
 दी जाएगी और उसके बाद सीडीएसएल द्वारा इसे अग्रिम कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्य
 रस्तागत पर वोट डाल देगा, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।

सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे भारतीय समयानुसार निम्न दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और कुशल,
 11 फरवरी, 2026 को प्रातः 05:00 बजे (भारतीय मान्यानुसार) से पहले केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया
 के माध्यम से अपनी सहमति (उत्सर्क लेख) या असहमति (उत्सर्क विरोध) में चुन कर, जिससे इससे विचार
 किए जायेगा माना जा सके, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि सदस्य की तस्कर से औद्योगिक वोट
 ग्रहण नहीं हुआ है।

नृत्तिक कम्पनी के सभी शेयर होल्डर/निवाडाइड कर्ता में रखे गए हैं, इसलिए सदस्यों को औद्योगिक वोट
 माया है और अपने संबंधित विभागांतरित परिशिष्टलेखों के अनुसार इंग्लिश वोट अप्स्ट्रेट / रजिस्टर्ड
 करें। कम्पनी के निवेशक नक्का ने श्री हेन्त कुरुष समायोत्री (सदस्या संख्या एफजीसीएल7348, सीडीसी
 संख्या 14214), एफकेएस एड एसिएएएस, एलएसबी के डेरिवेटिवेड पार्टनर को संबद्धक के रूप में
 नियुक्त किया है, जो प्रेक्टिसिंग कम्पनी सेक्टर है, और वह पाठ्यक्रम बेलेन प्रक्रिया की निष्पन्न और
 आन्दृत तरीके से जांच कर सकें।

संबद्धक की रिपोर्ट के साथ पीअरलेन बेलेन के परिणाम शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को या उससे
 पहले घोषित किए जाएंगे और कम्पनी की वेबसाइट <https://gemrecycling.com> और
 सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर डाले जाएंगे। वे परिणाम साथ ही
 स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड को www.bseindia.com पर भी बाजार पहुंचाएँ, जहाँ
 कम्पनी के इंटेलिजेंट यूजर सुवीदाइड कर रहे हैं।

प्रति सीडीएसएल के ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के बारे में कोई आपका कोई प्रश्न या समस्या है,
 तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800
 21 09911 पर कॉल कर सकते हैं। ई-वोटिंग सिस्टम में गैलियट की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों
 में निगरा की स्थापना होगी, सीडीएसएल, सीडीएसएल, एम, 25वीं मंजिल, मेरिनम प्लाज़ा, मुम्बई,
 महाराष्ट्र, भारत मिल काउन्टरड, एनएम जोशी मार्ग, लोअर पेलेट (पूर्व), मुम्बई-400013 से संपर्क किया जा
 सकता है।

कृते एक नवम्बर को ई-वोटिंग लिमिटेड
 हस्ता/ -
 तुषिता मोहन

दिनांक: 12 जनवरी, 2026
स्थान: दिल्ली

कंपनी अधिकारी
 आईसीएसआई एफ नं.
 23180

[illegible]

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN: L65910KL1992PLC006023,
Registered Office : W - 4/ 638A, Manappuram House,
P.O. Valpad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंटन्ट्स में रखे गए लेखों के अनुमोनों की सार्वजनिक नीलामी मिनिस्त्रिलिखित शाखाओं पर दिनांक 16.02.2022 के, को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा, इस पैके डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिसमें एक्स्ट्रास्ट्रड वर द्वारा सृजित किए जाने के बावजूद अपने लेनो की रकम नहीं चुकाई है, जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुनः सूचना दिए की जाएगी, नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इसे करने में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.


(निम्नलिखित की सूची)

दिल्ली, कालकाजी, 100870700079359, 100870700081801, लक्ष्मी नहर, 100890700075639, शालीमार बाग, 102780700023191, पूर्व दिल्ली, भजनपुरा दिल्ली, 1220407000056022, 122040700032891, जगतपुरी दिल्ली, 120840700010777, नयी दिल्ली, नजमादद, 1088810700024892, नरैना सिंग रोड, 108870700018727, चण्डीगढ़ रोड कचोलगम, 1089207000045400, रघुबीर नहर, 1234107000056180, तुलनाकाबाद एक्स्ट्रास्ट्रड कालकाजी, 1111107000051202, उत्तर दिल्ली, बिन्गारो जेटीबी नहर, 107870700025704,

उपरोक्त नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को मिनिस्त्रिलिखित का पालन करना होगा:- इच्छुक बोलीभाजियों को ईंग्लिश के रूप में क, 10,00,00/- नीलामी के दिन नकद जमा करना होगा (अपनेल बोलीभाजियों को रूप में लौटा दिया जाएगा), बोलीभाजों को वैध पहचान प्रमाण/पीन कार्ड साथ लेकर आना होगा, अधिक जानकारी के लिए कृपया 9911809139 पर संपर्क करें.

अधिकृत अधिकारी
माधुरस्य कायमते लि. हेतु.

[illegible]



**ADITYA BIRLA
CAPITAL**

PROTECTION INVESTMENT FINANCIAL AWARENESS

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय – इंडियन रेनॉवा कैंडल, वेरावल, गुजरात

शाखा कार्यालय – जो कोपरेशन टेक पार्क, अंबे, ठाणे, महाराष्ट्र

सांग सचना (प्रगतिवृत्ति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3)

निवर्तित परिसंपत्तियों के प्रगतिवृत्ति हित और पुनर्गठन तथा प्रगतिवृत्ति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के द्वारा एकादश निम्नलिखित कर्जदारी को नोटिफ दिया जाता है कि अधिकृत आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जो है, इसलिए आरक्षित) के दिनांक-दिनांक के अनुसार कर्जदार को पुनर्गठन में उनके ऋण खाता को हरे-निष्पातित (पूर्णतः एकल) करने तथा कर्जदारी के अधिनियम तहत पर निवर्तित परिसंपत्तियों के प्रगतिवृत्ति हित और पुनर्गठन तथा प्रगतिवृत्ति हित 13 (2) के तहत एक मांग सूचना में बताया गए अनुसार उद्देश्य गति और आर्थिक व्यवस्था, लान, शुल्क और पर संप्रतिपान करने को कहते हुए मांग सूचना को जारी कर रहे हैं। हालांकि, प्रगतिवृत्ति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (सरकारी मांग सूचना दी जा रही है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार तथा जमाकर्ता/सह-जमाकर्ता का नाम एवं पता तथा ऋण खाता सं.
1	<p>1. मोहम्मद एकरुज रजा दूसरी मंजिल बिना छत के अधिकांश के, प्लॉट नंबर 4-1, गाँव हस्तल प्रताप एक्स्क्लू, मोहन गाँव, खरार नगर 65/19 और 65/20, उमन नगर, वेस्ट दिल्ली, 110059. 2. रजिया खारसम दूसरी मंजिल बिना छत के अधिकांश के, प्लॉट नंबर 4-1, गाँव हस्तल प्रताप एक्स्क्लू, मोहन गाँव, खरार नगर 65/19 और 65/20, उमन नगर, वेस्ट दिल्ली, 110059. 3. मोहम्मद रज्जा रजा सी-33, दूसरी मंजिल, गाँव खल्लो सी, नगर सज्जी, गाँव पैपा, जैतपुर एक्स्क्लूड्डेड पार्क-2, अंशारी रोड, साखर हिल, 110044. 4. रजिया नसीम सी-33, दूसरी मंजिल, गाँव खल्लो सी, नगर सज्जी, गाँव पैपा, जैतपुर एक्स्क्लूड्डेड पार्क-2, अंशारी रोड, साखर हिल, 110044. 5. मोहम्मद रज्जा रजा रजा रजा: आदित्य</p>


62266

ली, चौडंबर रोड, ठाणे, महाराष्ट्र-400601

(के सहज)

(2) के सहज नोटिस की प्रतिसाधित सेवा ।

पर्याप्त) से प्राप्त क्रेडिट युक्ति के पुनर्पुनर्ता में एक युक्ति के रूप में वगैरह युक्ति में है। सहज बाद, पुनर्पुनर्ता अधिनियम, 2002 (सहज की अधिनियम) की परा मकद पर ओ के व्याज के साथ यु की कायना से भी के) के नियम 3 के अनुसार, प्रकाश के माध्यम से भी



गृहम हा

पंजीकृत कार्यालय हवी मी

जहाँ के अधोनासाधरी ने गुनम लाउंगर काइनरन लिं के विसीत अधोनासाधरी का अधोनासाधरी पुनर्पुनर्ता (पुनर्पुनर्ता) निगमांकरी 2002 के नियम 3 के साथ पंजीकृत अधिनियम कर्तरी से सुनाने में वगैरह कायना में असफल रह है, अतः एलुडुका कर्तरी और जउन अधिनियम वगैरह 13(4) के तहत अनुसार कर्तरी को विसीत था के अधोनासाधरी को उस संव्यवाक प्रमिनुत लेनवर की सहाय राशि और अधोनासाधरी का व्याज, प्रथमपुनर्ता विसरी को सुनाने की कर्तरी में ती था अधोनासाधरी का विसरी पदा नीति दिया

क्र. सं.	कर्तरी का नाम	मांग सुचना की तिथि	तिथि तक मांग सुचना के अनुसार राशि	व्याज के रूप में
1-	अनिल कुमार ठाकुर, संगीता देवी	07.01.2026	रु. 10,00,325/- (रुपु दस लाख तीन सौ पच्चीस मात्र),	05.01.2026 तक वकया मुलान, वकया (अधोनासाधरी) लेट बाज सधित तथा व्याज के रूप में

मांग सुचना की तिथि

07.01.2026

क्र. सं.

कर्तरी का नाम

अनिल कुमार ठाकुर, संगीता देवी

रुपरी मुलान का यह सहज के विसीत अधोनासाधरी 60 नगर पर निगमित, खसरा नगर नगर, नई दिल्ली-11005 नगर, (अधोनासाधरी) के विसीत अधोनासाधरी 48, उतरा 26

किती भी मागने में यदि रु तो कर्तरी

लगाव: सहज, निनांक 03.01.2026

अपत्य संगीत का विवरण। यथक संपीतवासः सम्पत्ति पंक्ति नं 4 पर, पुरी दूसरी मौजिका का पुरा हिरसा, ति. खरसान नं 65/19 और 65/20 में नं 5 पर, जो पुरी हस्तलसा, हिरसिले रागसिंघाण्टी के परिपूर में आध्याय प्रपूर पवनेल्ले में जो ति.खरसा कोसिका इस पंक्ति में है. पुरी. सम्पत्ति पंक्ति नं 3 और 5 आली पंक्ति. खाली पुरा पंक्ति. प्रपूर पवनेल्ले में

हवा पदवृत्तवास पर उपमेयन कावरीय नं 5 पर सारंगीत को तालवस नं 40 पंक्ति में सारंगीत में कवराय मुरी वरुण को सध-नाथ पर धुमनात कवरीय नं 6 के तालव में है. हिरसिले पंक्ति कोसिका पर हवा खाली और पंक्ति में कवराय मुरी वरुण नं 5 आली कोसिका पर धुमनात क के तालव पदवृत्तवास. कवराय पंक्ति में पर सारंगीत की अधिपत्तिय का पंथा 13 (13) के अनुसार, यह पंक्ति कोसिका की पंक्ति प्रसिद्धा संगीत को स्यानातिरिक्त कवरीय नं प्रसिद्धि विधायक में है। आशुके द्वारा उदा धरा का कोसिका भी तालवस पर सारंगीत की अधिपत्ति के तहत निष्पत्ति द्वारा कवराय पंक्ति कोसिका को लागू करके।

कवराय पंक्ति में 42 अधिपत्तिय को पंथा 13 की 23-पंथा (8) के अनुसार, यही एवीएएफएफएल की बकाया राग, एवीएएफ एफएल के ताल निष्पत्ति विधि से पहले किस्कि भी समय एवीएएफएफएल को प्रस्तुत की जाती है, जो प्रसिद्धा संगीत को एवीएएफएफएल द्वारा हिरा कोसिका की कवरीय नं 11 उदयय जाणया या उस प्रसिद्धा संगीत का हस्ततरंग या बिकली नती की जाणयी।


दिनांक: 10/01/2026
स्थान: नई दिल्ली

खर के अधिकार के, जिसका एरिया 35 वर्ग गज है, हसन गान्ध, उमम नगर, नई दिल्ली-110059 में स्थित करूँ 20 फीट चौड़ी सड़क।

उमम के स्याज के साथ-साथ लगान, कुचक, खरों आदि का सही तरीका का कलकल नतीजे सेपरे के सिंग प्रॉपर्टी एजेंट्स लिमिटेड के बिना किया, जो अब स्थिति से, पूर्वीतम भाग 29 और 5/4 की दस्तावेज में किसी अन्य कानूनी प्राप्ति के लिए

आप किराया गज राप्ती लगानों, लूटों और खरों के साथ बिचकी राप्ती या हासिलीति नहीं किया जाएगा, और एक्सीपेरफेक्शन

हस्ता... अधिकार प्राधिकारी
(आदित्य बिहारा हासिलीति फॉर्मल लिमिटेड)



आरबीएल
प्रवासी बैंक
आपका कर बैंक

आरबीएल
प्रवासी बैंक
आपका कर बैंक

सहपत्र

इसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि नीचे दी गई सूची में सूचना और स्याज के पुर्नगुणन में पुनः आवेक प्रभुत्वित किया जाये, जो स्थिति में परिवर्तित हो, अतिम डाला पते पर नोटिस जारी किए गए हैं।

क्र.सं.	व्यक्तिगत, सह-व्यक्तिगत, गैर-व्यक्तिगत, गैर-व्यक्तिगत का नाम और पता
1	श्री रोशन कुमार, उपाध्यक्ष पुत्र दी



**HINDUJA
HOUSING FINANCE**

हिंदुजा हाउसिंग फाईन

कॉर्पोरेट कार्यालय: फ़. 167-169, हुसदी मॉडल, अन्ना
ई-रौक: auction@hindujahousingfinance.com
लेकपिय धरम कांठ के पास, हाउसिंग फार्बेडॉन शी

आरएलएच - श्री ब्रजेश कुमार अवरुथी 9918300185, सीएलएच - सोनम
 आरआरएलएच - श्री पुष्पक अवरुथी 9453043399, सीआरएलएच - मिनीश

वित्तीय आदित्यों का प्रतिस्विचकण एवं पुनर्विर्माण तथा प्रतिस्वि हित

प्र लिमिटेड
 ६०६, सैफायट, जेवई ६०००१५
 कार्यालय: प्रभु १२४/०१६,
 नरनगर, काठमाडौं - २०८००६
 फोन: ९३६८१११११६, ९३६८११११६,
 ९३६८११२६२९६
 ईमेल: pr@prltd.com.np
 वेबसाइट: www.prltd.com.np
 चार्टर्ड अधिविनियम, २००२

(सफेदीका आन्दोलन) का धारा 13(2) के अन्तर्गत
हिंदुजा हारसिम फाइनरी लिमिटेड के मामले में नवीं जेलजिस्टिक अप्रकारणों/ग़ैरदलील द्वारा लिए गए बकाया सेवा राशि के साथ एपीबी-एन है। हमने क्विया ऑडितियों का प्रभूतिप्रकरण एवं पुनः धारा 13(2) के तहत पीजीकड डाक/साईट पोस्ट/वूरियर से आसियों वारे रस्ती के साथ नीचे आई है, जो निमा विवरित किए वापस कर दी गई है/पावटी प्राप्ता नहीं हुई है। यदि आप 60 दिनों के भीतर रिस्ते हैं, तो हमने अनिवार्य रूप से धारा 13(4) के अनुसार आप से मे क्वी की एक समालिख्त व्याप्त क्विया है।हवाई उद्योग पर आप दायित्व का निर्वहन नहीं करने की स्थिति में बैंक/यूसुलिस्त लेखा परिक्षणी भी अधिकार का प्रयोग कर सकता है। सफेदीकी अनिवार्य के तहत आपआवास,इंद्रकुल पार्किंग, भोजन गृहाण, ईंधन, इत्यादि लेनाया करणी करणी भी शामिल हो जा सकते हैं। उम्मीद है

अंगों के संबंध में, जो नीचे उल्लिखित तिथियाँ गणना तथा प्रमाणित किए प्रदर्शन अतिथि २००२ की तिथि विलुप्त सूर्य सूचना पहले ही जारी कर दी है।

उपरोक्त उल्लिखित राशि का भुगतान करने में ११ प्रतिशत को अपने कर्षण के लिए का इन्वॉयस अतिथि १३४ (१) के तहत प्रमाणित का अन्वय, कच्चे की सूचना/नीतिनी सूचना का अन्वय है।

उपरोक्त उल्लिखित और/या उनके गारंटी राशि का भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है तहत आंग की करवाई की जाणी।

कुपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन उक्त आंग के उपायों पर प्रतिफल प्रभाव डाले निम्न पूर्व निश्चित राशियों के निम्न, अपर उल्लिखित राशियों के लिए उल्लिखित करने के लिए है।

क्र.सं.	छाता संख्या /आयकतमी/सह-आयकतमी/गारदो का नाम और एनपीए की तारीख	मांग नोटिस की तारीख बकाया राशि
1	श्री श्यावांन सावित्री पुत्र श्री मोहम्मद बख्शजाल अली और श्रीमती सुखगुणा सिन्धी पत्नी श्री श्यावांन सिन्धी दोनों का पता: 334 ए. गंगा नगर, सरदार अली, बंगला नगर सरदार फार्म, कानपुर नगर,मैदो, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत-208013	06.01.2026 06.01.2026 तक रु.1534760/- तकन ब्याजकानूनी शुल्क
2	श्री अंकुश श्यावांन पुत्र श्री राम चंद्र और श्री कमला देवी श्रीवास्तव पत्नी श्री राम चंद्र और श्री चंद्र पुत्र स्वर्णीय श्री पुत्री लाल और श्री चंद्र किशोर पुत्र श्री राम चंद्र सभी का पता : को-265, बल्लूज वैक कॉलोनी, बंगला, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208027, बंगला, ग्राणीण कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत-208027	06.01.2026 06.01.2026 तक रु.724078 /- + ब्याज + कानूनी शुल्क
3	श्री शिव कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्णीय श्री विष्णुनाथ गुप्ता एवं श्रीमती इंदरा देवी पुत्र स्वर्णीय विष्णुनाथ गुप्ता दोनों का पता : 26/135 आनंद नगर शुक्लागंज उन्नाव, शुक्लागंज, मेरठ, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, भारत-209861	06.01.2026 06.01.2026 तक रु. 569898/- + ब्याज+ कानूनी शुल्क
4	श्री सुरेंद्र कुमार पुत्र श्री रामधनी और श्रीमती सावित्री पत्नी श्री रामधनी दोनों: पारित तरियाओ मंगरु,0 फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, भारत-216222	12.01.2026 10.01.2026 तक रु. 751862/- ब्याज+ कानूनी शुल्क

सुरक्षित संपत्तियों का विवरण		स्थान: गाजियाबाद, दिनांक: 13/01/2026
<p>की आराजी संख्या 272/-1 मिन का हिस्सा जिसका 1 वर्ग मीटर है,गांव-सनिगांव, परगना-हसलीखोटा, जिला काठामपुर नगर, उत्तर प्रदेश, भारत एप्रिया-83.61 वर्ग मीटर, दिशा/सीमाएं: की नंबर 272/-1 का हिस्सा परिधम-आराजी की नंबर 272/-1 का हिस्सा उत्तर-54.8 मीटर चौड़ी सड़क आराजी नंबर 276/-1 का हिस्सा</p> <p>की K-265, वलंड बैंक बर कॉलोनी, बर, कानपुर प्रदेश-2080027, बर, मेट्रो, कानपुर, उत्तर प्रदेश, 2027 एरिया-36.75 वर्ग मीटर, दिशा/सीमाएं: 2044,परिधम-4.5 मीटर सड़क, उत्तर- भूमि दक्षिण- भूमि नंबर 264</p> <p>की निका नंबर 26/135,आनंद नगर, नेटुआ, उन्नाव जो 48.53 वर्ग मीटर के हिस्सेकी प्लॉट है, आराजी नंबर 449/198का (पुराना नंबर 343 व नेटुआ,परगना सिकेन्दरपुर ससी, आनंद नगर, नरौली जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश, भारत-2098611 53 वर्ग मीटर, दिशा/सीमाएं:पूर्व-नगर बाजू गुप्ता परिधम- गोगा का मकान उत्तर-राजेश यादव दक्षिण-10 फीट चौड़ा रास्ता</p> <p>की आराजी नंबर 2767 के हिस्से पर स्थित प्लॉट, बर बरियाव, परगना और हसलीखो- फतेहपुर सड़क, एरिया-212622, दिशा-93 वर्ग मीटर, पूर्व-विकेटा का प्लॉट परिधम-17 फीट चौड़ा रास्ता उत्तर - जावेद का प्लॉट दक्षिण-17 फीट रास्ता,</p>		
<p>जवकी, यहाँ नीचे वर्णित ऋणकर्ताओं, साह-नी की। हम उद्घृत कर रहे हैं कि वित्तीय ऋणकर्ता का प्रत्युत्पातन करने में अनेक वृत्तों अस्थित संबंधित स्थितियों पर अभिमानकारी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिधि (प्रवर्तन) निगमावली 2002 के नियम 3 और 13(2) के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत निम्न वर्णित सूचनाओं में अधिकतम प्रतीत का सूचनाओं का सूचनाओं में अ इत्यादि के साथ सूचनाओं की प्राप्ति की ति</p>		पंजीकृत बरालिह हजारों
क्र.सं.	<p>ऋणकर्ताओं/ सह-ऋणकर्ताओं तथा आरंभकों के नाम</p> <p>1. कुश कुमार कुशवाहा रेखा देवी कुशवाहा</p> <p>2. स्वर्गगी सूरजगुप्ता रावत, अपने कानूनी वारिसों के माध्यम से राजू प्रसाद रावत सत्य देवी</p>	<p>संपत्ति के एवं 227 स नगर उत्तर गज अथवा सूरुख सं सूरुख सं.</p> <p>संपत्ति के संख्या-16 कृष्णा पति दुलहीराव 221009, र 680 वर्ग का घर, रास्ता, पति</p> <p>"संस्कृती अधिनियम 2002 की भाषा 13(2) के स</p>
<p>की कृष्णा ध्यान में रखें कि उक्त अधिनियम की संशोधित अपनी किसी भी प्रतिकृत परिसंपत्ति स्थान : कानपुर, संदीही दिनांक : 13-01-2026</p>		

[illegible]

लिफ्टिड ५. अमन सेन, हाथपुरी, कोल्हापुर-४१६००१ पंथि सिंघा, प्रथम मंजिल, मोदी भवन के सामने, ओकला फेज-३, नई दिल्ली-११००२० बियरग, २०१३ की धारा १३(२) के तहत नोटिफिकेशन का प्रकाशन इन उपर्युक्त(ओं) / गारटर(ओं) / गिरिवादी(ओं) जिनसे बैंक से निगम अथवा / बैंक/ट्रेड सुविधाओं और वित्तों अथवा धाराओं के निम्नलिखित परिचय(ओं) (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, निर्माण और सुस्था हित प्रदान अधिनियम २००२ (संरक्षित अधिनियम) की धारा १३(२) के तहत उनके			
र/ तारावाम उपाध्याय,	अथवा संस्था ८०८००३	संपत्तियों का विवरण/लागू की जाने वाली गिरवी संपत्तियों का पाता फ्लैट क्रमांक ई-१/०५-सी, ई.	सूचना की तिथि देव राशि (रुपये में) ०९-०१-२०२६

<p>पञ्चोत्तरी प्रदेष्टे मैंन पावर, 425. 110002 0/5-ती. तीसरी प्रदेश 201002 हवाय सी-69/ए. गाज़ियाबाद, उत्तर</p>	<p>पॉकेट ई. मूबुन बाण्डाना कीम लिजा गण्डियाबाद। क्षेत्रफल 29.70 वर्ग मीटर। संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व- सड़क 6 मीटर, पश्चिम- पलेट क्वाक 8-सी. उत्तर पलेट क्वाक 8-सी. दक्षिण- पलेट क्वाक 4-सी.</p>	<p>मैसै गियानादे राज्य सलियात्मक दूर पर व्याज सहित (पूर्ण मूंगलन तक) और उत्तर पर लगने वाले आक्रमिक प्रयत्न।</p>
--	--	---

राखीदार (जहां भी लागू हो) को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया अमर्यादा उक्त 60 दिनों की समाप्ति के बाद सरकारी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रकाशित किया जाएगा।

अधिकृत अधिकारी,
आरबीएल बैंक लिमिटेड

अआई हाउसिंग फावर्ल्स पावटे लिमिटेड

सीईओ, वसुधा भवन, शिवाजी पार्क, ६, वसुधा गार्डन जवळ मार्ग, आई बिल्डी - 110002
011-66102107, 011-69223701, ६. वसुधा हाउसिंग फावर्ल्स लिमिटेड
www.aishousingfawals.in

माँग

[illegible][illegible]

क्र.सं.	सैन्य नं. / ऊर्ध्वार्ध / ग्राहक का नाम	मार्ग सूचना की जातिका प्रकार सूचना की तिथि	बकाया राशि
1.	सैन्य नं. UP/ABD/HND/A000000257, श्री जलौ मोहनम पुर-भी-शोए अमर, श्रीमती नरेशीन अल्लर पानी-भी-शोए अल्लर कलौ, श्रीमती-महान नर-126 जीटीडी नगर, कलौ, अमरम मरिहल के पास, मरिहल, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत - 221103 नंबर-199 ए. अल्लर, अमरम घर वाली दुली मरिहल, सुल्तानबाद, जिला-इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, 221103	07-11-2025 07-01-2026 सांकेतिक	रु. 24,20,063/- दिनांक 05.11.2025 उक्त पैसा उत्तर पर काय
2.	सैन्य नं. UP/ABD/HND/A000000257, श्री जलौ मोहनम पुर-भी-शोए अमर, श्रीमती नरेशीन अल्लर पानी-भी-शोए अल्लर कलौ, श्रीमती-महान नर-126 जीटीडी नगर, कलौ, अमरम मरिहल के पास, मरिहल, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत - 221103 नंबर-199 ए. अल्लर, अमरम घर वाली दुली मरिहल, सुल्तानबाद, जिला-इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, 221103	07-11-2025 07-01-2026 सांकेतिक	रु. 10,27,799/- दिनांक 05.11.2025 उक्त पैसा उत्तर पर काय

उत्तर भारत, भारत - 2110161		
संपीका का विवरण: एक आवासीय मकान नंबर- 172C/157, क्षेत्रफल 28.00 वर्ग मी. मोहाल-पुरु मोहाल-दहल, जौरीटी पोस्ट इलाहाबाद, पश्चिम ओर महाल-सुरदास, बरियल पहाड़ा के पश्च, अरु-अरु-हारी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, 211016 पृष्ठ- 10 पीछे दाया कम्पा रास्ता, पार्किंग - रूट्स का पार्किंग		
3. लेन सं. UP/KN/PV/AR/A000001378, श्री सुश्र पांडे पुत्र श्री पुत्र मुनू नारायण पांडे, श्रीमती गोमा पांडे पत्नी श्री सुश्र पांडे एम1, 12 नयागा, गंगोत्री बिहार, कोलनी, वागारपी-221005 एरु गमानवर, मनमतीपुर सहाय डी.सी.मकान, डिहारी वागारपी, जो जी पब्लिक स्कूल के पास, समीकबन, वागारपी उत्तर भारत, भारत - 221011	07-11-2025 10-सर्किटे-26	रु. 754,653/- निकाफ 08.11.2025 क्षेत्र क्षास उत्तर भारत वागारपी
संपीका का विवरण: आवासीय मकान 669, गाँव- कुरुआ, पोस्ट ओरिसा- दिहारी, पुलिस स्टेशन- रोहिया, मकान कुरुआ, पुराना देवा अमना, तारुआरी प्राथमिक विद्यालय के पश्च, वागारपी, उत्तर भारत, 221011 पृष्ठ- कच्ची सड़क 15 पीछे पश्चिम- प्रवेशिका की मूम उत्तर- मेनो देवी की मूम दिहारी-आवासी का मूम पश्चिम		
4. लेन सं. UP/KN/PV/AR/A000001625, श्री पवन पायदाय पुत्र- श्री काली पार्ष, श्री पारदायक उपाध्याय पुत्र- श्री काली पार्ष, श्रीमती राणी श्रीरातपत पत्नी- श्री काली पार्ष, 0, काली बरण इंदरकोटिया वागारपी, अमया देवा, समीकबन, वागारपी, उत्तर प्रदेश, भारत - 221106	07-11-2025 10-सर्किटे-26	रु. 7,95,630/- निकाफ 08.11.2025 क्षेत्र क्षास उत्तर भारत वागारपी

<p>संजीव का विवरण: उमर 169 मी. आरसी वहीत खरपाटा रक्षात अमणत जिता वारामची, लागणी, सेमीअडम, आरसी उपर प्रेशर, मात- 221106 पुरी- आरसी का शेव भाग वरिषम- कळीशे 3800 मीटर पाठो पाठो उत्तर- आरसी का शेव भाग वरिषम- आरसी का शेव भाग</p>	<p>67-11-2025 09-01-2026 सांकेतिक</p>	<p>रू. 16,28,548/- दिनांक 05.11.2025 कल प्राप्त कर भाज</p>
<p>5. लेन सं. UPVNS/DC/AR/A000000144, श्रीमती ललिता देवी पन्नी- श्री विप्ल श्री धर्म शिवा कुमारा पुनी-शिव कुमार, पाता-मकान नं-1531, रोडमण फाँलेंनी, मध्यपुर मुगलसराय, सेमीअडम, बंदीली, उत्तर प्रदेश, भारत - 232101</p>		
<p>संजीव का विवरण: एक दिखारी आरसी वनर 57, खाला नंर-00559, सेलवळ 63.174 मी मीटर या 680 मी वृक्ष, मोठा-मध्यपुर, पारना-मात 221106 तहसील-मुगलसराय, शिवा-बंदीली, बंदीली, उत्तर प्रदेश, भारत - 232101 पुरी-रोडमण का मकान पडिण-ताळवारी राम का मकान उत्तर-कमलेश का मकान से सामने 8 किलो चौडा रस्ता दक्षिण-लमण का मकान</p>		
<p>6. लेन सं. UPVNS/DC/AR/A000000454, श्री शाहनवाज शाहनवाज पुनी श्री इरिवाक अरुणम, श्रीमती झोकाता बानो पनी श्री इरिवाक अरुणम, श्रीमती झोकाता बानो पनी श्री इरिवाक अरुणम, श्री इरिवाक अरुणम पुनी श्री मकनल अरुणम, पाता-1-मकान नं. 13/ 20/2023 सी-6 एल, तेलिवाकण, हुडुलगाव नं. 13, उत्तर प्रदेश, भारत 221002, पाता-2-मकान नंर-31/ 13 उत्तरा, खुलवाकण, जी.टी.सी. रोड, बुधनगर- नरसपुरम 221106.</p>	<p>07-11-2025 10-01-2026 सांकेतिक</p>	<p>रू. 14,26,930/- दिनांक 05.11.2025 कल प्राप्त कर भाज</p>

[illegible]